



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 415) पटना, बुधवार, 22 अगस्त 2012

सं0 वन्यप्राणी— 07/2004—403 (ई)/प०व०  
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

20 जुलाई 2012

आर्द्रभूमि के बेहतर प्रबंधन एवं विकास हेतु राज्य आर्द्रभूमि सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

1	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना	—	उपाध्यक्ष
3	डा० आर०के० सिन्हा, प्रोफेसर एवं हेड ईनवायरमेंट साईंस, एव डीन, स्कूल ऑफ अर्थ, बायोलॉजिकल एवं ईनवायरमेंट साईंस, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, बी०आई०टी० कैम्पस, पटना-14	—	सदस्य
4	डा० बृज गोपाल, प्रोफेसर (अवकाश प्राप्त), पर्यावरण विज्ञान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	—	सदस्य
5	श्री वी०के० सिन्हा, भा०व०से० (अवकाश प्राप्त) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, केरल	—	सदस्य
6	श्री सिद्धार्थ कौल, परामर्शी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार	—	सदस्य
7	श्री पी०आर० सिन्हा, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	—	सदस्य
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	—	सदस्य सचिव

(2) समिति आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

- (3) समिति, आर्द्र भूमि के भीतर और आस-पास रहने वाले लोगों की सहभागिता सहित आर्द्र भूमि के बेहतर संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में परामर्श देगी।
- (4) आर्द्र भूमि हेतु प्रबंधन योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी।
- (5) यह समिति अपनी कार्य पद्धति को, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति (कोरम) भी है, विनियमित करेगी।
- (6) समिति की बैठक कम-से-कम वर्ष में दो बार होगी। बैठक की तिथि एवं स्थान का निर्धारण सदस्य सचिव, सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर करेंगे।
- (7) पर्वद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया तीन वर्ष का होगा।
- (8) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता आदि निम्न प्रकार देय होगा :—
- (क) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं दैनिक यात्रा देय होगा।
- (ख) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता, पर्वद के सदस्य सचिव—सह—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एवं भुगतये होगा।
- (ग) इस व्यय का वहन बजट शीर्ष 2406—वानिकी और वन्यजीव, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष—001 निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष—0001 निदेशन एवं प्रशासन के यात्रा भत्ता मद से किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए एवं उसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार/सभी सदस्यों को दी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
ललन राय,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 415-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>